

[Home](#) » [Haryana](#) » [Hisar](#) » छात्राओं के शोषण और खराब खाना देने पर दो महिला कुक व प्रिंसिपल पर मामला दर्ज

## छात्राओं के शोषण और खराब खाना देने पर दो महिला कुक व प्रिंसिपल पर मामला दर्ज

Bhaskar News | Sep 05, 2016, 06:11 AM IST



**नारनौंद/हिसार.** कस्बे के एक स्कूल में हॉस्टल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं के शोषण का मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंच गया। दो दिन पहले जांच के लिए स्कूल पहुंची आयोग की टीम ने छात्राओं से बातचीत की। छात्राओं ने स्कूल के कुक और प्रिंसिपल पर शोषण और खराब खाना देने के आरोप लगाए थे। इसके बाद टीम ने छात्राओं के परिजनों से गांव में जाकर भी बातचीत की। आयोग की जांच के बाद के छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के कुक और प्रिंसिपल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्कूल में मई माह से विवाद चल रहा है।

हाँस्टल वार्डन व विद्यालय में कार्यरत दो महिला कुक के बीच छात्राओं को लेकर कई बार कहासुनी हो चुकी है। छात्राएं पहले भी दोनों कुकों पर शारीरिक शोषण व खराब खाना परोसने की शिकायत हाँस्टल वार्डन व स्कूल के इंचार्ज से कर चुकी हैं।

यह मामला बाल संरक्षण आयोग तक पहुंचा तो आयोग की टीम ने स्कूल में पहुंचकर हाँस्टल वार्डन, स्कूली छात्राएं और स्कूल के इंचार्ज सहित परिजनों से मुलाकात की। आयोग की टीम ने जांच को पूरी तरह से गोपनीय रखा है।

आयोग की टीम की जांच के बाद शुक्रवार की रात्रि को पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की महिला एसआई सरोज बाला ने शोषण की शिकार एक छात्रा के अलावा कई अन्य छात्राओं से बातचीत की। इसके बाद एक छात्रा की ओर से स्कूल की दो महिला कुक एवं स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

### **आयोग की टीम को पूरी घटना से अवगत कराया**

स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के परिजन बोले कि आयोग की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए गांव में आई थी। उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया गया है। उनके बच्चों के साथ स्कूल में कार्यरत दोनों कुक शारीरिक शोषण कर उनके साथ छेड़खानी भी करती हैं। स्कूल की अन्य छात्राओं के साथ ही यही बर्ताव किया जाता है। इस व्यवहार को लेकर स्कूल से काफी परिजन अपनी लड़कियों का वहां से नाम कटवाकर वापिस घर ले आए हैं। अगर दोनों कुकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वो भी अपनी लड़कियों को घर लाने के लिए मजबूर होंगे। आयोग की टीम के साथ खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रकला व नायब तहसीलदार विरेंद्र गिल भी साथ रहे।